



THE ASSAM GAZETTE

অসাধাৰণ

EXTRAORDINARY

প্ৰাপ্ত কৰ্তৃত্বৰ দ্বাৰা প্ৰকাশিত

PUBLISHED BY THE AUTHORITY

নং 56 দিশপুৰ, শনিবাৰ, 3 ফেব্ৰুৱাৰী 2024, 14 মাঘ, 1945 (শক)
No. 56 Dispur, Saturday, 3rd February, 2024, 14th Magha, 1945 (S. E.)

GOVERNMENT OF ASSAM
ORDERS BY THE GOVERNOR
OFFICE OF THE CHIEF ELECTORAL OFFICER, ASSAM

NOTIFICATION

The 3rd February, 2024

No. ELE 283/2021/135.- The Election Commission of India's Order No. 76/AS-LA/I/2022/CEMS-I/Bye, dated 24th January, 2024 is hereby published for general information.



भारत निर्वाचन आयोग
ELECTION COMMISSION OF INDIA

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001.

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001.

No. 76/AS-LA/1/2022/CEMS-I/Bye

Dated : 24th January, 2024
4 Magha 1945(Saka)

ORDER

WHEREAS, the Bye-Election to Legislative Assembly of Assam, 2021 for **58-Tamulpur Assembly Constituency** was held in pursuance of the Election Commission of India Notification No.100/AS-LA/3//2021 , dated **01st October, 2021**; and

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election shall, within 30 days from the date of election of the returned candidate, lodge with the District Election Officer an account of his election expenses which shall be true copy of the account kept by him or his election agent under Section 77 of the said act; and

WHEREAS, the result of the bye-election for **58-Tamulpur Assembly Constituency** of Assam, 2021 was declared by the Returning Officer on 02nd November, 2021 and hence the last date for lodging the account of Election Expenses was 01st December, 2021; and

WHEREAS, as per the report dated 01-12-2021 of the **DEO, Baksa** under sub-rule (1) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, received from the CEO, Assam vide his letter no. **ELE-283/2021/82** dated **18.01.2022**, **Shri Yaswanta Chauhan**, a contesting candidate from **58-Tamulpur Assembly Constituency** of Assam, 2021 has failed to lodge account of election expenses, as required under law; and

WHEREAS, on the basis of the said report of the District Election Officer, a Show-Cause notice No. 76/AS-LA/1/2022/CEMS-I(Bye), dated 18 February, 2022 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to **Shri Yaswanta Chauhan**, for not lodging of account of Election Expenses; and

WHEREAS, through the above said Show Cause Notice and under sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, **Shri Yaswanta Chauhan**, was directed to submit representation in writing to the Commission explaining the reasons for not lodging the account and also to lodge account of election expenses with the District Election Officer, **Baksa** District within 20 days from the date of receipt of the notice; and

WHEREAS, the District Election Officer, **Baksa** District, vide his letter no. **BEL/EEM/2023(Bye-Election)/5** dated 09.03.2022 has reported that the said notice was served to **Shri Yaswanta Chauhan's father Shri Padum Bahadur Chauhan** on **08.03.2022**; and

WHEREAS, the District Election Officer, **Baksa**, Supplementary Report No. ELE-22/262/2023-ELE-BK-109085 dated 12-09-2023 and reported that **Shri Yaswanta Chauhan**, has not submitted account of election expenses. Further, after receipt of the said notice, **Shri Yaswanta Chauhan**, has neither furnished any reason nor explanation to the Election Commission of India, for failure to lodge the account as prescribed under law; and

WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that:-

"If the Election Commission is satisfied that a person-

- (a) has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and*
- (b) has no good reason or justification for the failure,*

the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order."

WHEREAS, on the basis of facts and available records, the Commission is satisfied that **Shri Yaswanta Chauhan** has failed to lodge account of election expenses and has no good reason or justification for the failure to do so; and

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Shri Yaswanta Chauhan**, Vill. Kumbhijhar, PO-Nagrijuli, PS-Tamulpur, Distt. Baksa, Assam and a contesting candidate in 58-Tamulpur Assembly Constituency Bye Election of the State of Assam to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

By Order,

(SUJEET KUMAR MISHRA)
SECRETARY

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

सं० 76/एस-एलए/1/2021/सी.ई.एम.एस.-1(उप)

दिनांक: 24 जनवरी, 2024
4 माघ, 1945(शक)

आदेश

यतः भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिनांक 01 अक्टूबर, 2021 की अधिसूचना सं० 100/एस-एलए/3/2021/एनईएस-11 के अनुसरण में आसाम के 58-तमूलपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए उप-निर्वाचन, 2021 आयोजित किया गया था; और

यतः लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, किसी निर्वाचन में, निर्वाचन लड़ रहा प्रत्येक अभ्यर्थी, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपने निर्वाचन व्यय का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल करेगा जो उक्त अधिनियम की धारा 77 के अंतर्गत उनके द्वारा या उनके निर्वाचन अभिकर्ता (एजेंट) द्वारा रखे गए लेखे की एक सत्य प्रति होगी; और

यतः, आसाम के 58-तमूलपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के उप-निर्वाचन, 2021 के परिणाम रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा दिनांक 02 नवम्बर, 2021 को घोषित किए गए थे और इस प्रकार निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अन्तिम तारीख 01 दिसम्बर, 2021 थी; और

यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम(1) के अंतर्गत, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, असम से दिनांक 18.01.2022 के पत्र सं० ईएलई-283/2021/82 के द्वारा प्राप्त जिला निर्वाचन अधिकारी की दिनांक 01.12.2021 के रिपोर्ट के अनुसार श्री यशवंत चौहान, जो असम के 58-तमूलपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र, 2021 से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने में असफल रहे हैं;

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी की उक्त रिपोर्ट के आधार पर, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (5) के अंतर्गत श्री यशवंत चौहान को अपने निर्वाचन व्यय के लेखे प्रस्तुत नहीं करने के लिए कारण बताओ नोटिस सं. 76/एस-एलए/1/2021/सी.ई.एम.एस.-1 दिनांक 18 फरवरी, 2022 जारी किया गया था, और

यतः, उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए और निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार श्री यशवंत चौहान को लेखा प्रस्तुत न किए जाने संबंधी कारणों को स्पष्ट करते हुए, आयोग को अपना अभ्यावेदन लिखित रूप में प्रस्तुत करने और नोटिस के प्राप्त होने की तारीख से 20 दिनों के भीतर जिला निर्वाचन अधिकारी, बक्सा को अपने निर्वाचन व्यय का पूर्ण लेखा प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया था, और

यतः जिला निर्वाचन अधिकारी, बक्सा ने अपनी पत्र सं० बीईएल/ईईएम/2021 (उप निर्वाचन)/5 दिनांक 9 मार्च, 2022 में सूचित किया है कि उक्त कारण बताओ नोटिस श्री यशवंत चौहान के पिताजी श्री पदुम बहादुर चौहान को दिनांक 08 मार्च, 2022 को तामील किया गया था, और

यतः जिला निर्वाचन अधिकारी, बक्सा ने पत्र सं० ईएलई-22/262/2023-ईएलई-बीएके-109085 दिनांक 12.9.2023 की अनुपूरक रिपोर्ट अग्रेषित की है और बताया है कि श्री यशवंत चौहान ने निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं किया है। इसके अतिरिक्त, उक्त नोटिस की पावती के उपरान्त, श्री यशवंत चौहान ने विधि के अंतर्गत यथा विहित लेखा दाखिल करने में अपनी असफलता के लिए भारत निर्वाचन आयोग को न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है, और

यतः लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में यह उपबंधित किया गया है कि:

यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति

(क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है, और

(ख) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण अथवा न्यायोचित्य नहीं रखता है तो निर्वाचन आयोग, शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा

यतः, तथ्यों और उपलब्ध रिकार्डों के आधार पर आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री यशवंत चौहान, अपने निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने में असफल रहे हैं और उनके पास ऐसा करने में असफल रहने के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है, और

अतः अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि आसाम राज्य के उप-निर्वाचन, 2021 के 58-तमूलपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी श्री यशवंत चौहान, गांव कुम्भीझर डा0 नगरिजूलि, पीएस-तमूलपुर, जिला-बक्स, आसाम इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित होंगे।

आदेश से,

(सुजीत कुमार मिश्र)
सचिव

ANURAG GOEL,
Chief Electoral Officer, Assam,
Dispur, Guwahati-06.